

June 3, 2019

1. **The Manager- Listing**
National Stock Exchange of India Limited
(Scrip Code: NAUKRI)
2. **The Manager- Listing**
BSE Limited
(Scrip Code: 532777)

Sub.: Newspaper Publication of Notice of Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Rule 6(3) of Investors Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Amendment Rules, 2017, please find enclosed herewith the copy of the newspaper publication of Notice to shareholders of Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund, published in the following editions: -

- Business Standard (National Daily newspaper) on June 1, 2019
- Business Standard Hindi (Daily newspaper of the State) on June 1, 2019

Submitted for your information & records.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For Info Edge (India) Ltd.


MM Jain
Company Secretary

Encl: as above

infoedge

इंफो एज (इंडिया) लिमिटेड

CIN : L74899DL1995PLC068021

पंजीकृत कार्यालय : जीएफ-12ए, 94, मेघदूत, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
कारपोरेट कार्यालय : बी-8, सेक्टर-132, नोएडा-201304 (उत्तर प्रदेश)
फोन : 0120-3082000, फेक्स: 0120-3082095
वेबसाइट : <http://www.infoedge.in/>, ईमेल: investors@naukri.com

सूचना

निवेशक शिक्षण और बचाव कोष (आईईपीएफ) में कंपनी के इक्विटी शेयरों का अंतरण

कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निवेशक शिक्षण और बचाव कोष प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखापरीक्षण, अंतरण और रिफंड) नियमावली, 2016 समय-समय पर संशोधित ("नियमावली") के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों एतद्वारा सूचित किया जाता है। नियमों में कंपनी को सात लगातार वर्षों या अधिक अवधि से अभुक्त या अदावित लाभांश वाले शेयरों को आईईपीएफ खाते में अंतरित करने का प्रावधान है। नियमावली में निहित विभिन्न आवश्यकताओं के अनुपालन में कंपनी ने उचित कार्रवाई(या) करने के लिए उक्त नियमावली के तहत आईईपीएफ को अंतरित किए जाने के लिए देय शेयरों के संबंधित धारकों को व्यक्तिगत रूप में पहले ही सूचित कर दिया है। कंपनी ने ऐसे शेयरधारकों का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.infoedge.in पर भी अपलोड कर दिया है। संबंधित शेयरधारकों से यथाशीघ्र अदावित लाभांश का दावा करने का अनुरोध किया जाता है अन्यथा शेयर उचित तिथि को आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए जायेंगे।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले संबंधित शेयरधारकों जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए जाने देय हैं कृपया यह भी नोट करें कि नियमावली के अनुसार कंपनी आईईपीएफ प्राधिकरण को शेयरों के अंतरण उद्देश्य हेतु उनके द्वारा धारित मूल शेयर सर्टीफिकेट की जगह अनुलिपि शेयर सर्टीफिकेट जारी करेगी और यह सर्टीफिकेट जारी होने पर उनके नाम में जारी मूल शेयर सर्टीफिकेट स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे और किसी प्रकार से प्रभावी नहीं होंगे और यदि शेयर डीमेट रूप में धारित हैं तो कंपनी डिपोजिटरियों को कारपोरेट कार्रवाई के रूप में निर्देश देगी कि डिपोजिटरी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमेट खाते में उक्त शेयर अंतरण कर सकें।

शेयरधारक कृपया नोट करें कि कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया गया विवरण का पालन किया जाए और नियमावली के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को शेयर अंतरण के उद्देश्य हेतु कंपनी द्वारा अनुलिपि शेयर सर्टीफिकेट निर्गम के संबंध में यह पर्याप्त सूचना होगी।

कृपया नोट करें कि कंपनी द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण को पहले ही अंतरित अभुक्त या अदावित लाभांश अथवा अंतरित किए जा रहे शेयरों का इन पर प्रोद्भूत सभी लाभों यदि कोई हो, के साथ वेबसाइट अर्थात् <http://iepf.gov.in/IEPFA/refund.html> पर दी गई प्रक्रिया का पालन कर आईईपीएफ प्राधिकरण से वापसी के लिए शेयरधारकों द्वारा दावा किया जा सकता है। साथ ही कंपनी के पास रखे अदावित लाभांश का दावा करने के क्रम में अथवा जानकारी/स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने की स्थिति में कृपया हमारे आरटीए: मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि., नोबल हाईटस, प्रथम तल, प्लाट एनएच 2, सी-1 ब्लॉक एलएससी, निकट सावित्री मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, फोन नं.: 011-41410592, ईमेल: iepf.shares@linkintime.co.in को लिखा या संपर्क किया जा सकता है।

कृपया पत्राचार के लिए निम्नलिखित ब्यौरा दें: 1. कंपनी का नाम, 2. फोलिया नं. या डीपी और क्लाइंट आईडी, 3. शेयरधारक का नाम, 4. संपर्क नं., 5. ईमेल आईडी। शेयरधारकों के स्व-सत्यापित केवाईसी दस्तावेज जैसे पता प्रमाण के लिए नवीनतम यूटी. लिटी. बिल के साथ पैन की प्रति, एक निरस्त चेक भी प्रदान करें।

निवेशक मंडल के आदेशानुसार

हिते इंफो एज (इंडिया) लि.

एमएम जैन

एसवीपी-साचिविक एवं कंपनी साचिव

दिनांक: 31 मई, 2019

स्थान : नोएडा

43031
16
में)
डी
स्त
018
D.42
4.29
7.25
3.75
T
E
A
N
a
N.82
e.28
N
T
C.16
al.16
E
33
Eरूप
(1 की
-इट
के
Nमें)
11
218
टेड
/ -
Pहता
डर
07

Corporate/Marketing Office at A-66, Sector-63, Noida - 201301-U.P. (Developer/Builder)
 In the above noted application, you are required to file reply in Paper Book form in four sets alongwith documents and affidavits (if any), personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of summons, and thereafter to appear before the Tribunal on 16-08-2019 at 10.30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Registrar

Debts Recovery Tribunal, Lucknow

Marketing Office at A-66, Sector-63, Noida-201301, U.P.

In the above noted application, you are required to file reply in Paper Book form in four sets alongwith documents and affidavits (if any), personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of summons, and thereafter to appear before the Tribunal on 16-08-2019 at 10.30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Registrar

Debts Recovery Tribunal, Lucknow

1 JUNE 2019

- Basic

- Diluted

Note: The above as an 2019, filed with BSE Ltd Requirements) Regula ended March31, 2019 Company's website i.e. The above standalone by the Board of Direc Regulation 33 of the IS ended March31, 2019.

Date: May 30, 2019

Place: Gurugram

**Form No. 5
BEFORE DEBT RECOVERY TRIBUNAL, ALLAHABAD
9/2A, Panna Lal Road Allahabad (UP)
(Area of Jurisdiction Part of Uttar Pradesh)**

Summon for reply & appearance

O.A. No. 126/2019

Date: 24.05.2019

Summons to defendants through publication under Section 19 (3) of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institution Act, 1993 read with, Rule 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (procedure Rule 1993).

Application No. 126 of 2019

**Punjab National Bank & Oriental Bank of CommerceApplicant
Vs**

M/s Abhinav Steel & Power Ltd. & OthersDefendant

4. Mr. Vinod Kumar Yadav S/o Phool Chandra Yadav 11/8, Myohall Road Shasi Puram Colony R/o Allahabad UP-211002

.....Director Guarantor Mortgagor

5. Mr. Raj Kumar Yadav S/o Mr. K.P. Yadav R/o Village- Matadin ka pura, Post- Phaphamau, Gohri-Allahabad, UP-211013

.....Director

6. Mr. Bipin Kumar Srivastava S/o Mr. K.P. Srivastava R/o B-43/S-4, Shalimar Garden Ext-2, Shahibad Paswada, Ghazalabad, UP-201005

.....Director

7. Gajanan Rajaraman Chavan S/o Rajaram Shivram Chavan, R/o 604, Vinayak Apartment Pratappgarh CHSI, Kuber Gully Parel, Village Parel, Mumbai-400012.

.....Director

9. M/s Iskcon Infra Engineering Pvt. Ltd. a company incorporated under the Companies Act, 1956/2013 having its registered office at 307, Third Floor, Vardhaman Master Plaza Plot No. 2, LSC Gazipur, Delhi-11096

.....Corporate Guarantor

10. M/s A.J. Power Pvt. Ltd. a company incorporated under the Companies Act, 1956/2013 having its registered office at 401, Mahvirji Complex LSC, Rishabh Jain Vihar, Delhi-110092

.....Corporate Guarantor

11. M/s Anjaney Steels Pvt. Ltd. a company incorporated under the Companies Act, 1956/2013 having its registered office at 3, Third Floor, Mahavirji Complex, LSC, Rishabh Jain Vihar, Delhi-110092

.....Corporate Guarantor

12. M/s Iskcon Infotech Pvt. Ltd. a company incorporated under the Companies Act, 1956/2013 having its registered 3, Third Floor, Mahavirji Complex, LSC, Rishabh Vihar, Delhi-11092

.....Corporate Guarantor

13. M/s P.J. Energy Pvt. Ltd. a company incorporated under the Companies Act, 1956/2013 having its registered office at 3, Third Floor, Mahavirji Complex, LSC, Rishabh Jain Vihar, Delhi-110092

.....Corporate Guarantor

15. Central Bank of India, a body corporate constituted under Banking Companies(Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970. and

.....Corporate Guarantor

Registered Of	EXTRAC
Total Income from C	
Earning before Inte Amortization (EBIT	
Net Profit/(Loss) for and/or exceptional	
Net Profit/(Loss) fo exceptional items)	
Net Profit/(Loss) fro	
Total Comprehen (Comprising Profit/	
and Other Compre	
Equity Share Capit	
Earning Per Share (not annualised)	
- Basic:	
- Diluted:	
Notes:	
1 The above resu on 30.05.2019	
2 The above is a 33 of the SEB websites (www	
Place: Noida	
Date: 30.05.2019	

**infoedge
INFO EDGE (INDIA) LIMITED**

CIN: L74899DL1995PLC068021 | Regd. Office: GF-12A, 94, Meghdoot Building, Nehru Place, New Delhi-19
 Corp. Office: B-8, Sector-132, Noida-201304 (Uttar Pradesh) | Tel: 0120-3082000; Fax: 0120-3082095
 Web: <http://www.infoedge.in/>; email: investors@naukri.com

NOTICE

**Transfer of Equity Shares of the Company to
Investor Education and Protection Fund (IEPF)**

This Notice is hereby given pursuant to provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 notified by the Ministry of Corporate Affairs as amended from time to time ("the Rules"). The Rules, inter-alia contains provisions for transfer of unpaid or unclaimed dividend to IEPF authority and transfer of shares in respect of which dividend remains unpaid or unclaimed for seven consecutive years or more to IEPF.

Adhering to the various requirements set out in the Rules, the Company has already communicated individually to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF authority under the said Rules for taking appropriate action(s). The details of such shareholders are also uploaded on the website of the Company i.e. www.infoedge.in. The concerned shareholders are thus requested to claim the unclaimed dividend at the earliest, otherwise the shares shall be transferred to the IEPF authority at appropriate date.

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF authority, may also take note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF authority as per Rules and upon such issue, the original share certificate which stands registered in their name will stand automatically cancelled and will have no effect whatsoever and in case shares are held in Demat form, the Company would give appropriate instructions in the form of Corporate Action to the Depositories such that the Depositories are able to transfer the said shares to the demat account of the IEPF authority.

The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of duplicate share certificate(s) by the company for the purpose of transfer of shares to IEPF authority pursuant to the Rules.

Please take note that unclaimed or unpaid dividend which have already been transferred or the shares which are being transferred by the Company to IEPF authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by the shareholders from IEPF authority by following the procedure given on its website i.e. <http://iepf.gov.in/IEPFA/refund.html>. Further in order to claim the unclaimed dividend lying with the Company or in case you need any information /clarification, please write to or contact our RTA : M/s. Link Intime India Pvt. Ltd., Noble Heights, 1st Floor, Plot NH 2, C-1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi - 110058, Tel: 011-41410592, e-mail: iepf.shares@linkintime.co.in.

Please provide following details in all your communications: 1. Name of the Company, 2. Folio No. or DP and Client ID, 3. Name of Shareholder, 4. Contact No., 5. Email ID. Also provide self-attested KYC documents of the shareholder like PAN, cancelled cheque leaf along with latest utility bill as address proof.

By Order of the Board of Directors
For Info Edge (India) Ltd

(MM Jain)

SVP-Secretarial & Company Secretary

Date: May 31, 2019

Place: Noida